

## इत्तिदा


### बाल संरक्षण आचार संहिता

बच्चों के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों एवं अन्य लोगों के लिए आवश्यक है कि वे—

- उन परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहें जो खतरा / जोखिम बन सकती है, और उनका प्रबन्धन करें।
- कार्य एवं कार्यक्षेत्र को योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से करें ताकि जोखिम को कम किया जा सके।
- जहाँ तक सम्भव हो, बच्चों के साथ, सभी के सामने ही कार्य करें।
- ऐसा वातावरण सुनिश्चित करें जहाँ बच्चों से संबंधित मुद्दों को उठाया जा सके और उन पर खुली चर्चा की जा सके।
- अपने साथियों/कर्मचारियों में जिम्मेदारी व जवाब देही की भावना विकसित करें ताकि बच्चों के प्रति गलत व्यवहार को नज़रअन्दाज ना किया जा सके।
- बच्चों से कर्मचारियों के साथ उनके संबंधों पर बातचीत करें एवं उन्हें चिंताजनक बातें बताने के लिए प्रोत्साहित करें।
- बच्चों को सशक्त बनाएं उनके साथ बच्चों के अधिकारों पर चर्चा करें, उन्हें समझाएं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं? और किसी किस्म की परेशानी होने पर वे क्या कर सकते हैं ?

सामान्यतः यह अनुचित है कि —

- दुसरो से अलग, बच्चे के साथ अकेले में अधिक समय बिताना
- बच्चो को अपने घर ले जाना, विशेषतः उस स्थिति में जब घर में आप अकेले हों



कर्मचारियों व अन्य लोग कभी भी ऐसा ना करें—

- बच्चों को मारना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या चोट पहुंचाना
- बच्चों के साथ शारीरिक/लैंगिक संबंध बनाना
- बच्चों के साथ कभी ऐसा रिश्ता न बनाएं जो शोषण या अनैतिक प्रतीत हो।
- इस प्रकार के कार्य /व्यवहार करना जिससे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार /शोषण /दुरुपयोग का जोखिम हो।

कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्ति को गलत अभ्यासों या संभावित दुरुपयोग माने जाने वाले कार्यों एवं व्यवहारों से बचना चाहिये । उदाहरणतः —

- ऐसी भाषा का उपयोग करना या सुझाव/ सलाह देना जो कि अनुचित, आक्रामक या अपमानजनक हो।
- शारीरिक रूप से ऐसा व्यवहार जो अनुचित एवं उकसाने वाला हो।
- साथ में कार्य करने वाले बच्चों के साथ एक ही कमरे या बिस्तर पर अकेले/ सबकी नजर से दूर सोना।
- बच्चों के ऐसे कार्य करना जो वे खुद कर सकते हों।
- बच्चों के ऐसे व्यवहार को माफ करना अथवा सहभागी बनना जो कि गैर कानूनी , असुरक्षित एवं अनुचित हो।
- इस इरादे से कोई कार्य करना जिससे बच्चे को अपमान, शर्म, छोटापन, भावनात्मक शोषण, उपेक्षा, भेदभाव महसूस हो या किसी दूसरे बच्चे का पक्ष लेना महसूस हो।